



::आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क::
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE



द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan
रेस कोर्स रिंग रोड / Race Course Ring Road
राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: commrappl3-cexamd@nic.in

रजिस्टर्ड डाक ए.डी.द्वारा

DIN-20211264SX00008188E7

क	अपील / फाइल संख्या/ Appeal / File No.	मूल आदेश सं / O.I.O. No.	दिनांक/ Date
	V2/14/GDM/2021	16/GST/AC/2020-21	24/11/2020

अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

KCH-EXCUS-000-APP-259-2021

आदेश का दिनांक / Date of Order:	30.11.2021	जारी करने की तारीख / Date of issue:	02.12.2021
------------------------------------	------------	--	------------

श्री अखिलेश कुमार, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /
Passed by Shri Akhilesh Kumar, Commissioner (Appeals), Rajkot.

ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/ वस्तु एवं सेवाकर, राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: /
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :
घ अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता / Name & Address of the Appellant & Respondent :-

M/s. Vikas Fabricators & Erectors (B-43, NU-10B, Shakti Nagar, Near Deepak Bakery, Gandhidham-Kutch-370201, .

इस आदेश (अपील) से ब्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) मामा शुल्क केन्द्राय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण क प्रांत अपील, केन्द्राय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 का धारा 35B क अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है। /

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) वर्गीकरण मूल्योंकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर.के. पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए। /

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताया गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलों सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (मिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, द्वितीय तल, बहुमाली भवन असावा अहमदाबाद- 380016 को की जानी चाहिए। /

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमवाली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपए, 5,000/- रुपए अथवा 10,000/- रुपए का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। /

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty/demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-

(B) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपए, 5,000/- रुपए अथवा 10,000/- रुपए का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। /

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-



- (i) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकती एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियां संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकारण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in Form ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.
- (ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जमाना विवादित है, या जमाना, जब केवल जमाना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपये से अधिक न हो।
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है
(i) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
(ii) सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि
(iii) सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम
- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं- 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगा।
For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,
Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :
(i) amount determined under Section 11 D;
(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules
- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.
- (C) भारत सरकार को पुनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India:
इस आदेश को पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामलों में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथमपरंतुक के अंतर्गत अवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन इकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। / A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:
(i) यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में। / In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse
(ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छूट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
(iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.
(iv) सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो क्यूटी क्रेडिट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (नं- 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा निर्यात की गई तारीख अथवा समयावधि पर या बाद में पारित किए गए हैं। / Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
(v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संश्लेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OI/O and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.
(vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए।
जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए।
The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.
(D) यदि इस आदेश में कोई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पट्टी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकारण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various umbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.
(E) यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-1 के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क स्टिकट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-1 in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.
(F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकारण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में बर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.
(G) उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और तबीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in.



:: ORDER-IN-APPEAL ::

M/s. Vikas Fabricators & Erectors, Gandhidham (hereinafter referred to as "Appellant") has filed Appeal No. V2/14/GDM/2021 against Order-in-Original No. 16/GST/AC/2020-21 dated 24.11.2020 (hereinafter referred to as "impugned order") passed by the Assistant Commissioner, Central GST Division, Gandhidham (Urban) (hereinafter referred to as 'adjudicating authority').

2. The facts of the case, in brief, are that the Appellant was engaged in providing various services viz. Erection, Commissioning and Installation Service, Security Agency's Service, Business Auxiliary Service etc. and was registered with Service Tax Department having Registration No. AATPN3050AST001. On the basis of information, it was found that the Appellant had provided various taxable services and had charged and collected service tax from their clients but did not deposit the same in Government Exchequer for which four Show Cause Notices were issued to them earlier for the period from F.Y. 2008-09 to December, 2013, January, 2014 to March, 2015, April 2015 to March, 2016 and April, 2016 to March, 2017. For the subsequent period of April, 2017 to June, 2017, the Appellant was asked to furnish information / documents. The Appellant vide letters dated 21.5.2019 and 23.7.2019 furnished information / documents. On scrutiny of documents, it was revealed that the Appellant had received total amount of Rs. 1,12,72,850/- during the period from April, 2017 to June, 2017 as a consideration for providing taxable services, but the appellant had not paid service tax amounting to Rs. 15,72,080/- on the said income nor filed ST-3 Return.

2.1 Show Cause Notice No. IV/19-12/GIM Urban/Adj/2019-20 dated 7.8.2019 was issued to the Appellant calling them to show cause as to why service tax amounting to Rs. 15,72,080/- should not be demanded and recovered from them under Section 73(1) of the Finance Act, 1994 (hereinafter referred to as 'Act'), along with interest under Section 75 of the Act and proposed imposition of penalty under Sections 76, 77 and 70 of the Act.

2.2 The above Show Cause Notice was adjudicated by the adjudicating authority vide the impugned order who confirmed demand of service tax amounting to Rs. 15,72,080/- under Section 73(1) of the Act, along with interest under Section 75 of the Act and imposed penalty of Rs. 1,57,208/- under Section 76 of the Act, Rs. 10,000/- under Section 77(2) of the Act and late fee of Rs.



[Handwritten signature]

20,000/- under Section 70 of the Act read with Rule 7C of the Service Tax Rules, 1994.

3. Being aggrieved, the Appellant preferred the present appeal contending, *inter-alia*, as under:

(i) The inquiry was initiated against them and Show Cause Notices were issued to them covering the period from April, 2008 to March, 2016 and Orders-in-Original and Orders-in-Appeal were issued for the said period. That they have availed benefit of SVLDRS Scheme and discharged certificates have also been issued to them for the period upto 31.3.2016. For the present period of April, 2017 to June, 2017, they requested the adjudicating authority to give them time for making payment of service tax upto October, 2020 which was unpaid due to financial crisis and ill health of the proprietor. However, the adjudicating authority did not accept their submission and confirmed service tax demand of Rs. 15,72,080/-.

(ii) That the adjudicating authority erred in not granting sufficient time for payment of tax due to Covid-19 and erroneously confirmed service tax demand. That the adjudicating authority erred in imposing penalty under Sections 76,77 and 70 of the Act.

4. Personal hearing in the matter was scheduled on 22.9.2021, 30.9.2021, 8.10.2021 and communicated through email. Shri Sanjay K. Mulchandani, authorized representative of the Appellant, vide letter dated 7.10.2021 furnished authority letter dated 18.9.2021 of the Appellant and sought adjournment on the grounds of ill health of the proprietor of the Appellant. Subsequently, two more opportunities were granted to the Appellant for personal hearing on 22.10.2021 and 15.11.2021. However, no consent was received from the Appellant. I find that sufficient opportunities have been offered to the Appellant. Since, the Appeal cannot be kept pending indefinitely, I proceed to decide the appeal on merits on the basis of grounds raised in appeal memorandum.

5. I have carefully gone through the facts of the case, the impugned order, and the grounds raised in Appeal Memorandum. The issue to be decided in the present appeal is whether the impugned order confirming service tax demand of



Rs. 15,72,080/- under Section 73(1) of the Act, along with interest under Section 75 and imposing penalty under Sections 76, 77 and 70 of the Act is correct, legal and proper or not.

6. On perusal of the records, I find that the Appellant had rendered various taxable services and received consideration during the period from April, 2017 to June, 2017 but failed to discharge service tax and also failed to file ST-3 Return for the said period. The impugned order has confirmed service tax demand of Rs. 15,72,080/- and imposed penalty under Sections 70,76 and 77 of the Act.

7. I find that the Appellant has not disputed the charge that they had not paid service tax for the period from April, 2017 to June, 2017 or the charge that they failed to file ST-3 Return for the said period. They have pleaded that they did not discharge the service tax due to financial crisis and ill health of the proprietor and that the adjudicating authority did not give them time to make payment of service tax. I do not agree with the plea of the Appellant. When taxable service is rendered, the Appellant was liable to discharge service tax within stipulated time. Since, the Appellant had failed to pay service tax within stipulated time, the Show Cause Notice was correctly issued on 7:8.2019 for raising demand for such non-payment. Further, there is no justifiable reason for non-payment of service tax. I, therefore, uphold the confirmation of service tax demand of Rs. 15,72,080/- under Section 73(1) of the Act. Since, confirmation of service tax demand is upheld, it is natural that confirmed demand is required to be paid along with interest. I, therefore, uphold the impugned order for recovery of interest under Section 75 of the Act.

8. As regards penalty imposed under Section 76 of the Act, I find that the Section 76 of the Act stipulates that a person, who has been served notice under Section 73(1) of the Act, in addition to the service tax and interest specified in the notice, be also liable to pay a penalty not exceeding ten per cent of the amount of such service tax. In the present case, the Appellant was issued Show Cause Notice under Section 73(1) of the Act for non-payment of service tax, which is not under dispute. Hence, the Appellant has been rightly held liable for penalty under Section 76 of the Act. I, therefore, uphold the impugned order imposing penalty of Rs. 1,57,208/- imposed under Section 76 *ibid*.

9. Regarding penalty of Rs. 10,000/- imposed under Section 77 of the Act, I



find that the adjudicating authority has imposed penalty on the grounds that the Appellant had failed to pay service tax in accordance with the provisions of Section 68 of the Act and also failed to file prescribed ST-3 returns for the period from April, 2017 to June, 2017. I concur with the findings of the adjudicating authority and uphold imposition of penalty of Rs. 10,000/- under Section 77(2) of the Act.

10. Regarding penalty of Rs. 20,000/- imposed under Section 70 of the Act, I find that the adjudicating authority has imposed late fee for failure to file ST-3 return, which is not under dispute. I, therefore, uphold imposition of penalty of Rs. 20,000/- under Section 70 of the Act read with Rule 7C of the Service Tax Rules, 1994.

11. In view of above, I uphold the impugned order and reject the appeal.

12. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

12. The appeal filed by the Appellant is disposed off as above.


सत्यापित,



विपुल शाह

(अधीक्षक आयुक्त)

By RPAD


30 November, 2021.
(AKHILESH KUMAR)
Commissioner (Appeals)

To, M/s. Vikas Fabricators & Erectors, Plot No. TCX-South 97, 1 st floor, Near Shyam Sundar Laundry, Gandhidham.	सेवा में, मैसर्स विकास फैब्रिकेटर्स एंड इरेक्टर्स, प्लॉट नंबर टीसीएक्स-साउथ 97, पहली मंजिल, श्याम सुंदर लॉन्डी के पास, गांधीधाम।
---	---

प्रतिलिपि :-

- 1) मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- 2) आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीधाम आयुक्तालय, गांधीधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3) सहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीधाम (शहरी) मण्डल, गांधीधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4) गार्ड फ़ाइल।

